

अथवा / OR

onlineBU.com

संवलवन प्रमेय के उपयोग से $L^{-1} \left\{ \frac{1}{(p+3)(p-1)} \right\}$ का मान ज्ञात कीजिए।

Using convolution theorem, find the value of

$$L^{-1} \left\{ \frac{1}{(p+3)(p-1)} \right\}$$

Q.11. सरल रेखाओं $x + y = 1$, $y - x = 1$ तथा $y = 2$ से बने त्रिभुज की भुजाओं पर क्रमशः बल P, Q, R क्रिया करते हैं। उनके परिणामी बल की क्रिया रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए।

Three forces P, Q, R act along the sides of the triangle formed by the lines $x + y = 1$, $y - x = 1$, $y = 2$

Find the equation of the line of action of their resultant.

अथवा / OR

तीन बल क्रमशः सरल रेखाओं $x = 0$, $y - z = a$; $y = 0$, $z - x = a$; $z = 0$, $x - y = a$ के अनुदिश क्रिया करते हैं। दिखाइये कि उन्हें एक बलयुग्म के तुल्य लघुकृत नहीं किया जा सकता है।

Three forces acting along the straight lines $x = 0$, $y - z = a$, $y = 0$, $z - x = a$, $z = 0$, $x - y = a$. Show that they cannot reduce equivalently to a couple.

**ML-68 (P)****B.Sc. III Sem. Mathematics Exam. 2014-15****Calculus Differential Equation
Mechanics***Time Allowed : Three Hours**Maximum Marks : 100*

नोट : सभी प्रश्न अनिवार्य है।

Note : Attempt all questions.

खण्ड - 'A' / Section - A

वस्तुनिष्ठ प्रश्न / Objective Type Questions

Q.1. सही विकल्प चुनिए।

Choose the correct option:

- i) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ का मान है:

The value of $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ is

- | | |
|-----------|---------------|
| (a) n^x | (b) e^{-x} |
| (c) e^x | (d) xe^{-x} |

(2)

ii) श्रेणी $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{1/2}}{n^2}$ है

- (अ) अभिसारी (ब) अपसारी
 (स) दोलनकारी (द) इनमें से कोई नहीं

The series $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{1/2}}{n^2}$ is

- (a) Convergent (b) Divergent
 (c) Oscillatory (d) None of these

iii) यदि $f(a+0) = f(a-0) \neq f(a)$, तब $x=a$ पर फलन रखता है:

- (अ) अपनेय असात्यता
 (ब) प्रथम प्रकार की असात्यता
 (स) द्वितीय प्रकार की असात्यता
 (द) इनमें से कोई नहीं

If $f(a+0) = f(a-0) \neq f(a)$, then at $x=a$ function has:

- (a) Removable discontinuities
 (b) Discontinuity of first kinds
 (c) Discontinuity of second kinds
 (d) None of these

iv) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ का मान होगा:

- (अ) 0 (ब) 1
 (स) -1 (द) अस्तित्व नहीं है

The value of $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ is

- (a) 0 (b) 1
 (c) -1 (d) Does not exist

onlineBU.com

Contd.....

(3)

v) $J_{1/2}x$ का मान है:

- (अ) $\sqrt{\frac{2}{\pi x}}$
 (ब) $\sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos x$
 (स) $\sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin x$
 (द) इनमें से कोई नहीं

The value of $J_{1/2}x$ is:

- (a) $\sqrt{\frac{2}{\pi x}}$
 (ब) $\sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos x$
 (स) $\sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin x$
 (द) None of these

vi) $P_2(x)$ का मान है:

The value of $P_2(x)$ is:

- (a) 1 (b) x
 (c) $\frac{1}{2}(3x^2 - 1)$ (d) $\frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$

vii) यदि $L\{f(t)\} = F(P)$, तब $L\{tf(t)\}$ का मान है:

If $L\{f(t)\} = F(P)$, then value of $L\{tf(t)\}$ is:

- (a) $F(P)$ (b) $-F'(P)$
 (c) $\int_p^{\infty} F(x) dx$ (d) $\frac{1}{P} F(P)$

viii) $L^{-1} \left\{ \frac{1}{P^2 + a^2} \right\}$ का मान है:

- (अ) Sin at (ब) Cos at
 (स) \sin^{-1} at (द) इनमें से कोई नहीं

(6)

अथवा / OR

निम्न को परिभाषित कीजिए

अ) त्वरण

Define the following

a) Acceleration

ब) कोणीय वेग

b) Angular velocity

खण्ड - 'स' / Section - 'C'

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न Long / Answer Type Questions

Q.7 सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है।

Prove that every convergent sequence of real numbers is bounded.

अथवा / OR

श्रेणी $\frac{x}{1.2} + \frac{x^2}{2.3} + \frac{x^3}{3.4} + \frac{x^4}{4.5} + \dots$ की अभिसारिता का परीक्षण कीजिए।

Test the convergence of series

$$\frac{x}{1.2} + \frac{x^2}{2.3} + \frac{x^3}{3.4} + \frac{x^4}{4.5} + \dots$$

Q.8 दर्शाइये कि फलन

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$x = 0$ पर सतत है परन्तु अवकलनीय नहीं है

(7)

Show that the function

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

is continuous at $x = 0$, but not differential.

अथवा / OR

सिद्ध कीजिए कि दो चरों के दो सतत फलनों का योग एवं अन्तर सतत फलन होता है।

Prove that sum and difference of two continuous functions in two variables are continuous.

Q.9 निम्न समीकरण को घात श्रेणी विधि से हल कीजिए।

Solve the following equation by power series method.

$$\frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + y = 0$$

अथवा / OR

सिद्ध कीजिए कि

Prove that

$$P_{2n+1}(0) = 0 \text{ and } P_{2n}(0) = \frac{(-1)^n |2n|}{2^{2n} (n!)^2}$$

Q.10. $L\left\{\frac{e^{-at} - e^{-bt}}{t}\right\}$ का मान ज्ञात कीजिए।

Find the value of $L\left\{\frac{e^{-at} - e^{-bt}}{t}\right\}$.